

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2021—अग्रहायण 26, शक 1943

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 31-3-2021

1. **मौसम एवं वर्षा.**— राज्य में मौसम सामान्य रहा किन्तु वर्षा का ना होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- निरंक
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- निरंक
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक
 - (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :-निरंक
 - (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक
2. **जुताई, बोनी एवं रोपाई .**— जिला कवर्धा में रबी फसल हेतु जुताई एवं बोनी का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.
3. **सिंचाई.**— जिला बेमेतरा में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.

4. **कटाई .—** जिला दुर्ग, बालोद, बेमेतरा में गेहूँ, चना व बलरामपुर में धान फसल की कटाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.

5. **फसल स्थिति .—** जिला रायपुर में फसल की हालत सामान्य है. जिला गरियाबंद में फसल की हालत सुधरी है. जिला महासमुंद में फसल की हालत सामान्य है. जिला धमतरी में धान, गेहूँ, चना, मसूर, मटर, लाख-तिवड़ा राई-सरसों, कुल्थी, उड़द, अलसी व मूंगमोठ की हालत सामान्य है. जिला दुर्ग में फसल की हालत सामान्य है. जिला बेमेतरा में फसल की हालत सामान्य है. जिला कवर्धा में फसल की हालत सामान्य है. जिला बस्तर में फसल की हालत सामान्य है. जिला कोण्डागांव में धान फसल की हालत सामान्य है. जिला नारायणपुर में धान गेहूँ, मक्का, चना, उड़द, मसूर, अलसी व लाख-तिवड़ा एवं अन्य फसल की हालत सामान्य है. जिला बीजापुर धान व मक्का फसल की हालत सामान्य है. जिला सुकमा में धान, मक्का, ज्वार, उड़द, कोदो-कुटकी व कुल्थी फसल की हालत सामान्य है. जिला कोरबा में धान, गेहूँ, जौ, चना, मूंग, मसूर, मटर, उड़द व लाख फसल की हालत सामान्य है. जिला सरगुजा में गेहूँ, चना, सरसों एवं अन्य फसलों की हालत सामान्य है. जिला बलरामपुर में धान, मूंगफली, उड़द व अरहर फसल की हालत सामान्य है. जिला कोरिया में तुअर, राई, सरसों, गेहूँ, अलसी, मटर, चना, लाख-तिवड़ा व मसूर फसल की हालत सामान्य है. जिला रायगढ़ में लाख, तिबड़ा, मटर, मसूर, गन्ना, तिल व गेहूँ फसल की हालत सुधरी है. जिला जशपुर में गेहूँ, चना व अन्य फसल की हालत सामान्य है.

6. **पशु-स्थिति .—** सभी जिलों में पशु स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.

7. **चारा .—** सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

8. **बीज प्राप्ति .—** सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

9. **खेतीहर श्रमिक .—** खेतीहर श्रमिक सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 31-3-2021

जिला/तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि.मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर	मिलीमीटर				
1. रायपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. आरंग	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. अभनपुर	..				
4. तिल्दा	..				
*जिला-बलौदा- बाजार-भाटापारा	मिलीमीटर				
1. बलौदाबाजार	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. पलारी	..		4. (1) .. (2) ..	6. ..	8. ..
3. भाटापारा	..				
4. सिमगा	..				
5. बिलाईगढ़	..				
6. कसडोल	..				
जिला-गरियाबंद बिन्द्रानवागढ़	मिलीमीटर				
1. गरियाबंद	..	2. निंदाई का कार्य जारी है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. राजिम	..		4. (1) फसल की हालत सुधरी है. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. छुरा	..				
4. मेनपुर	..				
5. देवभोग	..				
जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर				
1. महासमुन्द	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. पिथौरा	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. बागबाहरा	..				
4. बसना	..				
5. सरायपाली	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-धमतरी	मिलीमीटर				
1. धमतरी	..	2. खड़ी फसल पर रोग व क्रीड़ों का आक्रमण नहीं है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कुरुद	..		4. (1) धान, गेहूँ, चना, मसूर, लाख, तिवड़ा, राई, सरसों, मटर, कुल्थी, उड़द, मूंगमोठ, अलसी की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मगरलोड	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
4. नगरी	..				
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	..	2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़े का प्रभाव नहीं है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. धमधा	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है. चना एवं गेहूँ की कटाई जारी है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. पाटन	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
जिला-बेमेतरा	मिलीमीटर				
1. थानखम्हरिया	..	2. खड़ी फसलों पर छुटपुट कीट प्रकोप की शिकायत है, कृषकों द्वारा उपचार जारी है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. साजा	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है. गेहूँ व चना फसल की कटाई का कार्य जारी है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. बेरला	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
4. बेमेतरा	..				
5. नवागढ़	..				
जिला-बालोद	मिलीमीटर				
1. बालोद	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. गुरुर	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है. गेहूँ व चना फसल की कटाई का कार्य जारी है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. गुंडरदेही	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
4. डौंडी	..				
5. डौंडीलोहारा	..				
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
1. छुईखदान	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. खैरागढ़	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है. गेहूँ व चना की कटाई का कार्य जारी है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. डोंगरगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
4. राजनांदगांव	..				
5. छुरिया	..				
6. डोंगरगांव	..				
7. अं. चौकी	..				
8. मोहला	..				
9. मानपुर	..				
जिला-कवर्धा- कबीरधाम	मिलीमीटर				
1. कवर्धा	..	2. रबी फसल की जुताई व बोनी का कार्य जारी है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बोड़ला	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. सहसपुर लोहारा	..	खड़ी फसल पर छुटपुट कीट प्रकोप की शिकायत है.	(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. पंडरिया	..				
5. रेंगाखारकला	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-बस्तर					
1. जगदलपुर	..	2. बोनी का कार्य समाप्त.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बस्तर	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बकावण्ड	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. लोहण्डीगुडा	..				
5. बास्तानार	..				
6. तोकापाल	..				
7. दरभा	..				
जिला-कोण्डागांव	मिलीमीटर				
1. कोण्डागांव	..	2. रबी फसल की बोनी का	3. ..	5. ..	7. ..
2. माकड़ी	..	कार्य जारी है.	4. (1) धान, मक्का फसल की हालत	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. फरसगांव	..		सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. केशकाल	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
5. बड़ेराजपुर	..				
*जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. धौड़ाई	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. ओरछा	..		(2) ..		
*जिला-कांकेर-	मिलीमीटर				
उत्तर बस्तर					
1. कांकेर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. भानुप्रतापपुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. दुर्गाकोन्दल	..		(2) ..	.	
4. चारामा	..				
5. अन्तागढ़	..				
6. पखांजूर	..				
7. नरहरपुर	..				
जिला-दंतेवाड़ा-	मिलीमीटर				
दक्षिण बस्तर					
1. दंतेवाड़ा	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. गीदम	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कुआकोण्डा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. कटेकल्याण	..				
5. बड़ेबचेली	..				
जिला-सुकमा	मिलीमीटर				
1. सुकमा	..	2. रबी फसल की बोनी का	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. छिन्दगढ़	..	कार्य जारी है.	4. (1) धान, मक्का, ज्वार, कोदो-कुटकी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कोन्टा	..		रागी, उड़द व कुल्थी की हालत	चारा पर्याप्त.	
			सामान्य है.		
			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-बीजापुर	मिलीमीटर				
1. बीजापुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. भैरमगढ़	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. भोपालपटनम्	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. उसूर	..				
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर	..	2. . .	3. ..	5. . .	7. पर्याप्त.
2. बिल्हा	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मस्तूरी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. तखतपुर	..				
5. कोटा	..				
*जिला-मुंगेली	मिलीमीटर				
1. मुंगेली	..	2. . .	3. ..	5. . .	7. . .
2. पथरिया	..		4. (1) ..	6. . .	8. . .
3. लोरमी	..		(2) ..		
*जिला-जांजगीर- चाम्पा	मिलीमीटर				
1. जांजगीर	..	2. . .	3. ..	5. . .	7. . .
2. चांपा	..		4. (1) ..	6. . .	8. . .
3. पामगढ़	..		(2) ..		
4. सक्ती	..				
5. डभरा	..				
6. नवागढ़	..				
7. जैजेपुर	..				
8. मालखरौद	..				
9. अकलतरा	..				
10. बलौदा	..				
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
1. कोरबा	..	2. जुताई का कार्य पूर्ण.	3. ..	5. . .	7. पर्याप्त.
2. करतला	..		4. (1) धान, गेहूँ, जौ, मक्का, चना, मूंग, मसूर, मटर, उड़द व लाख की हालत सामान्य है.	6. . .	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा	..		(2) उपरोक्त फसल सामान्य है.		
4. पाली	..				
5. पोडी उपरोडा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-सरगुजा	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. लुन्डा	..		4. (1) गेहूँ, चना व सरसों फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. लखनपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
4. उदयपुर	..				
5. सीतापुर	..				
6. बतौली	..				
7. मैनपाट	..				
*जिला-सूरजपुर	मिलीमीटर				
1. सूरजपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. भैयाथान	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. रामानुजनगर	..		(2) ..		
4. प्रेमनगर	..				
5. प्रतापपुर	..				
6. ओड़गी	..				
जिला-बलरामपुर- रामानुजगंज	मिलीमीटर				
1. बलरामपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. रामचन्द्रपुर	..		4. (1) धान, मक्का, मूंगफली, उड़द व अरहर फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. वाडफनगर	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
4. राजपुर	..				
5. शंकरगढ़	..				
6. कुसमी	..				
जिला-कोरिया- बैकुंठपुर	मिलीमीटर				
1. बैकुंठपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. सोनहत	..		4. (1) तुअर, राई, सरसों, गेहूँ, अलसी, मटर, चना, लाख, तिवड़ा व मसूर की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
4. खड़गवां	..				
5. भरतपुर	..				
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पुसौर	..		4. (1) लाख, तिवड़ा, मसूर, मटर, गन्ना, तिल व गेहूँ की हालत सुधरी है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. खरसिया	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी है.		
4. सारंगढ़	..				
5. बरमकेला	..				
6. घरघोड़ा	..				
7. तमनार	0.5				
8. लैलूंगा	..				
9. धरमजयगढ़	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
1. जशपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. मनोरा	..		4. (1) गेहूँ, चना व अन्य फसलों की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कुनकुरी	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
4. दुलदुला	..				
5. फरसाबहार	..				
6. बगीचा	..				
7. कांसाबेल	..				
8. पत्थलगांव	..				

*टीप.— जिला बलौदाबाजार, नारायणपुर, कांकेर, मुंगेली, जांजगीर चाम्पा, सूरजपुर से पत्रक अप्राप्त है.

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 7-4-2021

- मौसम एवं वर्षा.— राज्य में मौसम सामान्य रहा किन्तु वर्षा का ना होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- निरंक
 - 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- निरंक
 - 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक
 - 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :-निरंक
 - 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक
- जुताई, बोनी एवं रोपाई.— जिला कवर्धा में रबी फसल हेतु जुताई एवं बोनी का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.
- सिंचाई.— जिला बेमेतरा में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
- कटाई.— जिला बलौदाबाजार, दुर्गा, बालोद, बेमेतरा में गेहूँ, चना व बलरामपुर में धान फसल की कटाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.

5. **फसल स्थिति .**— जिला रायपुर में फसल की हालत सामान्य है. जिला बलौदाबाजार में फसल की हालत सामान्य है. जिला गरियाबंद में फसल की हालत सुधरी है. जिला महासमुन्द में फसल की हालत सामान्य है. जिला धमतरी में धान, गेहूँ, चना, मसूर, मटर, लाख, तिवड़ा, राई-सरसों कुल्थी, उड़द, अलसी व मूंगमोठ फसल की हालत सामान्य है. जिला दुर्ग में फसल की हालत सामान्य है. जिला राजनांदगांव में फसल की हालत सामान्य है. जिला कवर्धा में फसल की हालत सामान्य है. जिला बस्तर में फसल की हालत सामान्य है. जिला कोण्डागांव में धान फसल की हालत सामान्य है. जिला नारायणपुर में धान, गेहूँ, मक्का, चना, उड़द, मसूर, अलसी व लाख-तिवड़ा एवं अन्य फसल की हालत सामान्य है. जिला बीजापुर में धान व मक्का फसल की हालत सामान्य है. जिला सुकमा में धान, मक्का, ज्वार, रागी, कोदो-कुटकी, उड़द व कुल्थी फसल की हालत सामान्य है. जिला बिलासपुर में फसल की हालत सामान्य है. जिला कोरबा में धान, गेहूँ, जौ, चना, मूंग, मसूर, मटर, उड़द व लाख फसल की हालत सामान्य है. जिला सरगुजा में गेहूँ, चना, सरसों एवं अन्य फसलों की हालत सामान्य है. जिला बलरामपुर में गेहूँ, चना, अलसी, राई, सरसो व आलू फसल की हालत सामान्य है. जिला कोरिया में तुअर, राई, सरसों, गेहूँ, अलसी, मटर, चना, लाख-तिवड़ा व मसूर फसल की हालत सामान्य है. जिला रायगढ़ में लाख तिवड़ा, मटर, मसूर, गन्ना, तिल, गेहूँ फसल की हालत सुधरी है. जिला जशपुर में गेहूँ, चना व अन्य फसल की हालत सामान्य है.

6. **पशु-स्थिति.**— सभी जिलों में पशु स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
7. **चारा.**— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
8. **बीज प्राप्ति.**— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
9. **खेतीहर श्रमिक.**— खेतीहर श्रमिक सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 7-4-2021

जिला/तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि.मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर	मिलीमीटर				
1. रायपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. आरंग	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. अभनपुर	..				
4. तिल्दा	..				
जिला-बलौदा-बाजार-भाटापारा	मिलीमीटर				
1. बलौदाबाजार	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
2. पलारी	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है. गेहूँ फसल की कटाई का कार्य जारी है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. भाटापारा	..				
4. सिमगा	..				
5. बिलाईगढ़	..				
6. कसडोल	..				
जिला-गरियाबंद बिन्धानवागढ़	मिलीमीटर				
1. गरियाबंद	..	2. निदाई का कार्य जारी है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. राजिम	..		4. (1) फसल की हालत सुधरी है. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. छुरा	..				
4. मैनपुर	..				
5. देवभोग	..				
जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर				
1. महासमुन्द	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. पिथौरा	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. बागबाहरा	..				
4. बसना	..				
5. सरायपाली	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-धमतरी	मिलीमीटर				
1. धमतरी	..	2. खड़ी फसल पर रोग व क्रीड़ा का आक्रमण नहीं है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कुरुद	..		4. (1) धान, गेहूँ, चना, मसूर, लाख, तिवड़ा, राई, सरसों, मटर, कुल्थी, उड़द, मूंगमोठ, अलसी की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मगरलोड	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
4. नगरी	..				
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	..	2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ा का प्रभाव नहीं है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. धमधा	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है. चना एवं गेहूँ की कटाई जारी है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. पाटन	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
*जिला-बेमेतरा	मिलीमीटर				
1. थानखम्हरिया	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. साजा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. बेरला	..		(2) ..		
4. बेमेतरा	..				
5. नवागढ़	..				
जिला-बालोद	मिलीमीटर				
1. बालोद	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. गुरुर	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है. गेहूँ व चना फसल की कटाई का कार्य जारी है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. गुंडरदेही	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
4. डौंडी	..				
5. डौंडीलोहारा	..				
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
1. छुईखदान	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. खैरागढ़	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है, गेहूँ व चना फसल की कटाई का कार्य अंतिम चरण पर है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. डोंगरगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
4. राजनांदगांव	..				
5. छुरिया	..				
6. डोंगरगांव	..				
7. अं. चौकी	..				
8. मोहला	..				
9. मानपुर	..				
जिला-कवर्धा- कबीरधाम	मिलीमीटर				
1. कवर्धा	..	2. रबी फसल की जुताई व बोनी का कार्य जारी है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बोड़ला	..	खड़ी फसल पर छुटपुट कीट प्रकोप की शिकायत है.	4. (1) फसल की हालत सामान्य है. खड़ी फसल पर छुटपुट कीट प्रकोप की शिकायत है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. सहसपुर लोहारा	..		(2) ..		
4. पंडरिया	..				
5. रेंगाखारकला	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-बस्तर					
1. जगदलपुर	..	2. बोनी का कार्य समाप्त.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बस्तर	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बकावण्ड	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. लोहण्डीगुडा	..				
5. बास्तानार	..				
6. तोकापाल	..				
7. दरभा	..				
जिला-कोण्डागांव	मिलीमीटर				
1. कोण्डागांव	..	2. रबी फसल की बोनी का	3. ..	5. ..	7. ..
2. माकड़ी	..	कार्य जारी है.	4. (1) धान, मक्का फसल की हालत	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. फरसगांव	..		सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. केशकाल	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
5. बड़ेराजपुर	..				
*जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. धौड़ाई	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. ओरछा	..		(2) ..		
*जिला-कांकेर-	मिलीमीटर				
उत्तर बस्तर					
1. कांकेर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. भानुप्रतापपुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. दुर्गाकोन्दल	..		(2) ..		
4. चारामा	..				
5. अन्तागढ़	..				
6. पखांजूर	..				
7. नरहरपुर	..				
जिला-दंतेवाड़ा-	मिलीमीटर				
दक्षिण बस्तर					
1. दंतेवाड़ा	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. गीदम	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कुआकोण्डा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. कटेकल्याण	..				
5. बड़ेबचेली	..				
जिला-सुकमा	मिलीमीटर				
1. सुकमा	..	2. रबी फसल की बोनी का	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. छिन्दगढ़	..	कार्य जारी है.	4. (1) धान, मक्का, ज्वार, कोदो-कुटकी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कोन्दा	..		रागी, उड़द व कुल्थी की हालत	चारा पर्याप्त.	
			सामान्य है.		
			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-बीजापुर	मिलीमीटर				
1. बीजापुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. भैरमगढ़	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. भोपालपटनम्	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. उसूर	..				
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. बिल्हा	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मस्तूरी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. तखतपुर	..				
5. कोटा	..				
*जिला-मुंगेली	मिलीमीटर				
1. मुंगेली	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. पथरिया	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. लोरमी	..		(2) ..		
*जिला-जांजगीर- चाम्पा	मिलीमीटर				
1. जांजगीर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. चांपा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. पामगढ़	..		(2) ..		
4. सक्ती	..				
5. डभरा	..				
6. नवागढ़	..				
7. जैजेपुर	..				
8. मालखरौद	..				
9. अकलतरा	..				
10. बलौदा	..				
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
1. कोरबा	..	2. जुताई का कार्य पूर्ण.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. करतला	..		4. (1) धान, गेहूँ, जौ, मक्का, चना, मूंग, मसूर, मटर, उड़द व लाख की हालत सामान्य है.	6. ..	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
4. पाली	..				
5. पोड़ीउपरोड़ा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-सरगुजा	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. लुण्डा	..		4. (1) गेहूँ, चना व सरसों फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. लखनपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
4. उदयपुर	..				
5. सीतापुर	..				
6. बतौली	..				
7. मैनपाट	..				
*जिला-सूरजपुर	मिलीमीटर				
1. सूरजपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. भैयाथान	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. रामानुजनगर	..		(2) ..		
4. प्रेमनगर	..				
5. प्रतापपुर	..				
6. ओड़गी	..				
जिला-बलरामपुर- रामानुजगंज	मिलीमीटर				
1. बलरामपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. रामचन्द्रपुर	..		4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, राई, सरसों, आलू एवं अन्य फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. वाड्डफनगर	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
4. राजपुर	..				
5. शंकरगढ़	..				
6. कुसमी	..				
जिला-कोरिया- बैकुंठपुर	मिलीमीटर				
1. बैकुंठपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. सोनहत	..		4. (1) राई, सरसों, गेहूँ, अलसी, मटर, चना, लाख, तिवड़ा व मसूर की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
4. खड़गवां	..				
5. भरतपुर	..				
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पुसौर	..		4. (1) लाख, तिवड़ा, मसूर, मटर, गन्ना, तिल व गेहूँ की हालत सुधरी है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. खरसिया	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी है.		
4. सारंगढ़	..				
5. बरमकेला	..				
6. घरघोड़ा	..				
7. तमनार	0.5				
8. लैलूंगा	..				
9. धरमजयगढ़	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
1. जशपुर	..	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. मनोरा	..		4. (1) गेहूँ, चना व अन्य फसलों की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कुनकुरी	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
4. दुलदुला	..				
5. फरसाबहार	..				
6. बगीचा	..				
7. कांसाबेल	..				
8. पत्थलगांव	..				

*टीप.— जिला बेमेतरा, नारायणपुर, कांकेर, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, सूरजपुर से पत्रक अप्राप्त है.

पी. आर. प्रधान,
उप-आयुक्त, वास्ते-आयुक्त,
भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.